

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 16.10.2021\***

**\*थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,\***

**\*अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 01 करोड 10 लाख रूपये कीमत की 01 किलो 100 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम, मोटरसाइकिल, अवैध असलहा सहित मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार।\***

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना गढ़िया रंगीन की पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी।

दिनांक 15.10.21 की रात्रि 22.30 बजे को श्री सुन्दर लाल, थानाध्यक्ष गढ़िया रंगीन के नेतृत्व में थाना गढ़िया रंगीन की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **रामपुर चौराहा से अभियुक्त विपिन कुमार** को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 01 करोड 10 लाख रूपये कीमत की 01 किलो 100 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम व 01 अदद होण्डा कम्पनी की मोटर साइकिल तथा 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना गढ़िया रंगीन पर मु0अ0सं0 386/2021 धारा 8/17 NDPS ACT व मु0अ0सं0 387/2021 धारा 3/25 A.ACT बनाम **विपिन कुमार** पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:\***

1. **विपिन कुमार** पुत्र सियाराम निवासी ग्राम हरामपुर थाना भमौरा जिला बरेली

**\*बरामदगी का विवरण:\***

- 01 किलो100 ग्राम अफीम फाइन क्वालिटी ( अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 01 करोड 10 लाख रूपये कीमत )
- 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद
- एक अदद होण्डा कम्पनी की मोटर साइकिल रजि0 न0 UP 25 BD 3613

**\*पंजीकृत अभियोग का विवरण:-\***

- मु0अ0सं0 386/2021 धारा 8/17 NDPS ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम विपिन कुमार
- मु0अ0सं0 387/2021 धारा 3/25 A.ACT थाना गढ़िया रंगीन जिला शाह0 बनाम विपिन कुमार

**\*पूछताछ विवरण:-\***

अभियुक्त ने सघन पूछताछ पर बताया कि मेरे गांव के आस पास वाले गाँव में किसान अफीम की खेती करते हैं। वहां के किसान लोग सरकार से चोरी कर अफीम बेचते रहते हैं। मैं वही से ग्राहक बदल-बदल कर सस्ते दामो पर अफीम चोरी छिपके से लाता हूँ और यहां ग्राहक तलाश कर मुनाफा कमा कर महंगे दामो पर पास पड़ोस के जिले शाहजहाँपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बदायूँ आदि में बेच देता हूँ। जो पैसा मिलता है उससे मैं अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पास खेती नहीं है। मैं किसानों का नाम नहीं जानता हूँ। अभियुक्त से तमंचा का स्रोत पूछा तो बताया कि तमंचा व कारतूस मेरे पिताजी के पास था जिनकी लगभग 01 वर्ष पहले मृत्यु हो गयी थी तब से मैं यह तमंचा अपने पास रखता हूँ। मेरे पिताजी कहाँ से लाये थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

- SO सुन्दरलाल वर्मा थाना गढ़िया रंगीन शाह0
- SI श्री घनश्याम बहादुर थाना गढ़िया रंगीन शाह0
- हे0का0 282 मौ0 याकूब थाना गढ़िया रंगीन शाह0
- का0 1827 हरेन्द्र थाना गढ़िया रंगीन शाह0
- का0 1826 गौरव शर्मा थाना गढ़िया रंगीन शाह0
- का0 414 पूरनपाल लाल थाना गढ़िया रंगीन शाह0